

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मार्च 2025 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	4421.65	30	1230.88	11	2683.97	3
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	618.47	16	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	159.83	1	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	694.25	29	383.18	18
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	17.78	16	1231.09	15	529.29	12
11	झारखंड	883.91	10	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	1285.75	27	708.91	17	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	10183.89	21	-	-	-	-
16	मणिपुर	76.44	24	73.91	11	-	-
17	मेघालय	658.41	30	246.23	11	308.13	10
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	136.56	17	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	4682.69	30	1109.63	26	625.67	12
23	राजस्थान	3030.42	28	1006.65	10	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	4881.13	30	1489.30	25	2693.24	9
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	1060.37	30	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणीयां: 1) राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेष तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।
2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।
3) राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
4) प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।
5) -: नगण्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक